



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक- 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल

PROF. H. P. SHUKLA

संयोजक: भारतीय अनुवाद संघ

CONVENER : INDIAN TRANSLATION CONSORTIUM

मोबाइल/Mobile: + 91-9403783977

ई-मेल/E-mail: itc.mgahv@gmail.com

क्रमांक: 09/Convener-ITC/2020/01

दिनांक: 30.05.2020

परिपत्र

भारतीय अनुवाद संघ (Indian Translation Consortium) की स्थापना का उद्देश्य/प्रयोजन महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के अधिनियम 1996 (1997 के क्रमांक 3) के अनुच्छेद 4 में संकल्पित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक राष्ट्रीय अभिकरण के रूप में कार्य करना है। यह अभिकरण विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सहमति रखने वाले और अनुवाद-कर्म के प्रति समर्पित अनुवादकों के एक राष्ट्रीय क्रियाशील समूह के रूप में कार्य करेगा। इस अभिकरण की प्राथमिकता संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान के साहित्य एवं सर्जनात्मक साहित्य को अनूदित कर हिंदी समुदाय को उपलब्ध कराना है।

भारतीय अनुवाद संघ सहयोग पर आधारित एक राष्ट्रीय कार्य-समूह होगा, जिसमें देश और दुनिया भर के भारतीय एवं विदेशी भाषाओं के अनुवादक, विशेषतः हिंदी में अनुवाद करने वाले अनुवादक, शामिल हो सकते हैं। विश्वविद्यालय की योजनानुसार इस समूह में अनुवाद कार्य करने वाले सदस्यों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित दर से मानदेय भी देय होगा। इस मानदेय में अनुवाद समीक्षा एवं मूल्यांकन की राशि भी सम्मिलित होगी।

संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषाओंसे हिंदी में अनुवाद करने में रुचि रखने वाले अध्यापक, शिक्षक, अनुवादकर्मी इस अभिकरण में पंजीकरण कराने के लिए सादर आमंत्रित हैं, अनुरोध है कि स्वयं भी पंजीकरण कराएँ और अन्य समानधर्मा मित्रों को प्रेरित करें। पंजीकरण करने के लिए नीचे दिये गये 'लिंक' पर जाकर हिंदी अथवा अंग्रेजी में पंजीकरणप्रपत्र को भरकर 'सबमिट' करें-

हिंदी के लिए लिंक : <https://forms.gle/Am9GedTLLKF4Xeow7>

अंग्रेजी के लिए लिंक : <https://forms.gle/Kc8gZ3MFC1fAzBmZA>

किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए अभिकरण की ई-मेल: itc.mgahv@gmail.com पर मेल कर सकते हैं अथवा भारतीय अनुवाद संघ (Indian Translation Consortium) के सह-संयोजक डॉ. श्रीनिकेत कुमार मिश्र के मोबाइल नंबर: +91-8178789289 पर संपर्क कर सकते हैं।

सभी पंजीकृत अनुवादकों को विश्वविद्यालय की कार्य-योजनाओं से समय-समय पर अवगत कराया जाता रहेगा।

(हनुमानप्रसाद शुक्ल)

पोस्ट- हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा- 442001(महाराष्ट्र), भारत

Post: Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha - 442001 (Maharashtra), INDIA

वेबसाइट/Website : www.hindivishwa.org